

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 598]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 6 नवम्बर 2018—कार्तिक 15, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2018

फा. क्रमांक 4909-2018-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के दमोह एवं कटनी जिलों में संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को विधान सभा निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने वावत प्रस्ताव  
जिले का नाम – दमोह

## विधानसभा क्षेत्र कमांक एवं नाम – 054 पथरिया

संक्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवकर कमांक	बैत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6
1	श्री डी.के. जैन	सहाय्यत्री	जलसंसाधन संभाग दमोह	01	संषुण्ड जिले के लिये
2	श्री एन.सी. जैन	सहाय्यत्री	जलसंसाधन संभाग दमोह	02	
3	श्री अनंद शुभला	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत बाटियाहड़	03	
4	श्री बी.एस. ठाकुर	सहायक यंत्री	जलसंसाधन उपसंभाग दमोह	04	
5	डॉ. प.डब्ल्यू. खान	पशु चिकित्सा अधि. शाल्य	पशु चिकित्सा सेवाएं, दमोह	05	
6	श्री एल. पी. लडिया	रोजगार अधिकारी	दमोह	06	
7	श्री एस.के. साहू	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड दमोह	07	
8	श्री विनोद सिंह	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत दमोह	08	
9	श्री कं.के. तिवारी	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह	09	
10	श्री अशोक मुकाती	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा दमोह	10	
11	श्री एम.के. उमरिया	एस.डी.ओ.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा दमोह	11	
12	श्री एच.एल. अहिरवाल	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा दमोह	12	
13	डॉ. कं.पी. कुमारी	पशु चिकित्सा अधि. शाल्य	पशु चिकित्सा सेवाएं, दमोह	13	
14	श्री राजकुमार लडिया	परियोजना अधिकारी	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पश्चिमया	14	
15	श्री आर.डी. पटेल	एस.डी.ओ.	लोक निर्माण दमोह	15	
16	श्री सरनाम सिंह मोर्य	सहायक मूदा संरक्षण अधिकारी	कृषि विभाग दमोह	16	
17	श्री बी.एल. चोबे	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग दमोह	17	
18	श्री आई.के. शुभला	एस.डी.ओ.	लोक निर्माण विभाग दमोह	18	
19	डॉ. संजीव यादव	पशु चिकित्सा सेवाएं, दमोह	पशु चिकित्सा सेवाएं, दमोह	19	

संक्र.	आधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम		सेक्टर कमांडक	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
			2	3	4	
1						
20	श्री एस.सी.तिवारी	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह		20	
21	श्री अनिल जैन	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	जिला महिला एवं बाल विकास विभाग दमोह		21	
22	डॉ. हरिहरम चांदी	पशु विकितस्ता अधि. शास्त्र	पशु विकितस्ता सेवाएं, दमोह		22	
23	श्री रविराम पटेल	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग दमोह		23	
24	श्री रविन्द्र पाल	सहायक प्रांगणापक	माध्यवराव संप्रे शासकीय महाविद्यालय पथरिया		24	
25	श्री द्वी.के. तारख	सहायक प्रबंधक	म030 ग्रामीण सड़क विकास प्रांगण (पी.आई.यू.), दमोह		25	
26	श्री आर.एम. खान	सहायक प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दमोह		26	
27	डॉ. ए.के. श्रीवारस्तव	वारिट वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान केन्द्र दमोह		27	
28	श्री गणानंद तामकार	सहायक संचालक	कृषि विभाग दमोह		28	
29	श्री प्रेम लाल अहिरवाल	वनपरिषेक अधिकारी	वन विभाग दमोह		29	
30	श्री आवधेश सिंह	मध्य कार्बोपालन अधिकारी	जनपद पंचायत पथरिया		30	
31	श्री सी.बी.दुबे	उपयंत्री	जलसंसाधन पथरिया		31	
32	श्री राजेश कुमार चौधरी	प्रांगणापक	माध्यवराव संप्रे शासकीय महाविद्यालय पथरिया		32	
33	श्री अरविंद पाठे	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह		33	
34	श्री सनिल जैन	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह	(सिजरी)		
35	श्री शेलेन्द्र श्रीवारस्तव	प्रबंधक	म.प्र. ऐ.पांच ग्रामीण आजीविका मिशन दमोह	(सिजरी)		
35	श्री टी.एम. विनोद	सहायक प्रबंधक	एम.पी.एग्रो डेवल. कार्पोरेशन दमोह	(सिजरी)		

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शिकित्यां प्रदत्त करने वावत प्रस्ताव  
जिले का नाम - दमोह

### विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एवं नाम - 055 दमोह

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेक्टर क्रमांक	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शिकित्यां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6
1	श्री के.पी. मालवीय	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत दमोह	01	संपूर्ण जिले के लिये
2	डॉ. दी.आर. अहिरवार	पशु चिकित्सा अधिकारी शल्य	पशु चिकित्सा सेवां दमोह	02	
3	डॉ. एस.के. सोनी	पशु चिकित्सा अधिकारी शल्य	पशु चिकित्सा सेवां दमोह	03	
4	डॉ. राकेश शर्मा	पशु चिकित्सा अधिकारी शल्य	पशु चिकित्सा सेवां दमोह	04	
5	श्री बहोरी लाल कुरील	उपसंचालक	कृषि विभाग, दमोह	05	
6	श्री संजय आर्य	सहायक आयुक्त	सहकारिता विभाग दमोह	06	
7	डॉ. लौ.द्वौ. शुक्ला	पशु चिकित्सा अधिकारी शल्य	पशु चिकित्सा सेवां दमोह	07	
8	श्री के.पी. यादव	उपप्रबंधक	पापर प्रिव कारपांशुन लिमि. दमोह	08	
9	श्री अनन्प सिंह भदौरिया	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी	वाणिज्य विभाग दमोह	09	
10	डॉ. लौ.एन. पटेल	पशु चिकित्सा अधिकारी शल्य	पशु चिकित्सा सेवां दमोह	10	
11	श्री आर.डी. वर्मा	जिला पंजीयक	जिला पंजीयक, दमोह	11	
12	श्री एस.एल.धूर्वे	जिला विधान अधिकारी	विधान कार्यालय दमोह	12	
13	श्री अनन्प अवस्थी	प्राचार्य	केंद्रीय विद्यालय, दमोह	13	
14	श्री सुजीत श्रीवास्तव	सहायक अभियंता	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विति. कंपनी जबलपुर नाका दमोह	14	
15	श्री एम.एल. साहू	सहायक अभियंता	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विति. कंपनी जबलपुर नाका दमोह	15	
16	श्री कमलेश जैन	परियोजना अधिकारी	एकीकृत लघु परियोजना दमोह	16	
17	श्रीमति अर्नेता औधरी	सहायक संचालक	महास्य विभाग दमोह	17	
18	डॉ. इन्द्र कुमार कुम्हा	जिला आयुष अधिकारी	आयुष विभाग, दमोह	18	

सं.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेक्टर क्रमांक	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6
19	श्री अखिलेश चांदोरेकर	उपर्युक्ती	जलसंसाधन सभाग दमोह	19	
20	श्री संजय पाण्डे	पशुचिकित्सा अधिकारी	पशुचिकित्सालय दमोह	20	
21	श्री इस.के. शुभला	महाप्रबंधक	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, दमोह	21	
22	श्री एच.बी. मीना	महाप्रबंधक	जिला उद्योग केन्द्र, दमोह	22	
23	श्री पृथ्वीपाल सिंह	सहायक संचालक	शिक्षा विभाग, दमोह	23	
24	श्री आर. के. तिवारी	वाणिज्य कर अधिकारी	वाणिज्य विभाग दमोह	24	
25	श्री के. एस. पवार	कार्यपालन यंत्री	लोक स्थान्य यात्रिकी दमोह	25	
26	श्री महताब सिंह शावत	प्रभारी खानिज अधिकारी	खानिज विभाग दमोह	26	
27	श्री विनोद कुमार जेन	कार्यपालन यंत्री	संभागीय परियोजना लोक निर्माण विभाग दमोह	27	(सिंजर)
28	श्री गोविंद चौधू	अनुविभागीय अधिकारी	भू-जल विद दमोह		
29	श्री निखलेश दुबे	उपमहाप्रबंधक	पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमि. दमोह	(सिंजर)	
30	श्री जे.पी. सोनकर	कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग दमोह	(सिंजर)	

विशेष कार्यपालक दण्डधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने वावत प्रस्ताव  
जिले का नाम – दमोह

## विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एवं नाम – 056 जब्रेरा

सं. क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेक्टर क्रमांक	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6
1	श्री विनोद कुमार जैन	विकासखण्ड अधिकारी	जनपद पंचायत पथरिया	01	संपूर्ण जिले के लिये
2	श्री अश्वनी कुमार पाठक	विकासखण्ड अधिकारी	प्रभारी सीईओ, जनपद पंचायत, जब्रेरा	02	
3	श्री एम.एस. मुजालदा	सहायक संचालक	उद्यानिकी विभाग दमोह	03	
4	श्री आर.के. कोरी	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह	04	
5	डॉ. सोमिल राय	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	पशु चिकित्सा सेवाएं, दमोह	05	
6	श्री निर्मल चंद जैन	सहायक यंत्री	उपरंभाग जब्रेरा, जल संसाधन, जब्रेरा	06	
7	श्री जगदीश प्रसाद दुबे	सहायक प्रबंधक	म.प्र. ग्रोमीण सड़क प्राथिकारी (पीआईयू) दमोह	07	
8	श्री योगेन्द्र कुमार रोहित	सहायक प्रबंधक	ग्रामीण सड़क विकास अभियान (पीआईयू) दमोह	08	
9	डॉ. पन्ना लाल जैन	प्राथ्यापक	शा. कमला नेहरू कालेज दमोह	09	
10	डॉ. आर.पी. अहिरवाल	सहा. प्राथ्यापक	शा. सनातकोत्तर महाविद्यालय दमोह	10	
11	श्री कं.के. उमाहिया	प्राथ्यापक	शासकीय कमला नेहरू महाविद्यालय, दमोह	11	
12	श्री दिनेश कुमार नेमा	सहा. प्राथ्यापक	शा. कमला नेहरू कालेज दमोह	12	
13	श्री बी.पी. खरे	अनुविभागीय अधिकारी	लो.नि.वि. तेंदुखेडा	13	
14	डॉ. पी.के. जैन	प्राथ्यापक	शा. सनातकोत्तर महाविद्यालय दमोह	14	
15	श्री तुलसीराम दहायत	सहा. प्राथ्यापक	शा. कमला नेहरू कालेज दमोह	15	
16	श्री एम.के. खरे	उ.व.म. अधिकारी	वन विभाग तेंदुखेडा	16	
17	श्री के.पी. पटेल	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तेंदुखेडा	17	

सं. क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेक्टर क्रमांक	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6
18	डॉ. ए.एच.अंसरी	प्राध्यापक	शा. साताकोटर महाविद्यालय दमोह	18	
19	डॉ. हरिकांत बिलार	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	पशु चिकित्सा सेवाएं, दमोह	19	
20	श्री एच.के. महोबिया	उपवन क्षेत्रपाल	वन विभाग दमोह	20	
21	श्री एन.पी. मेहरा	सहायक यंत्री	उपसंभग तेढुखेड़ा जल संसाधन दमोह	21	
22	श्री हुकम सिंह	परिषेक्र अधिकारी	वन विभाग तेढुखेड़ा	22	
23	डॉ. सुमित पटेल	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	पशु चिकित्सा सेवाएं, दमोह	23	
24	श्री सतीश पाण्यसर	परिषेक्र अधिकारी	वन विभाग तेढुखेड़ा	24	
25	श्री भगवानदास अहिरवार	प्राचार्य	शासकीय महाविद्यालय जब्रेठा	25	
26	श्री निरजन सिंह	परिषेक्र अधिकारी	वन विभाग तेढुखेड़ा	26	(रिजर्व)
27	श्री धर्मेन्द्र नरवरिया	श्रम नियोक्तक	श्रम विभाग दमोह		(रिजर्व)
28	श्री जोपी. अहिरवार	भू-संरक्षण अधिकारी	भू-संरक्षण, दमोह		(रिजर्व)
29	श्री गणेश प्रसाद श्रीवास्तव	उपवन क्षेत्रपाल	वन विभाग दमोह		(रिजर्व)

विधानसभा निवाचन 2018  
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने वालत प्रस्ताव  
जिले का नाम – दमोह

## विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एवं नाम – 057 हटा (अ.जा.)

संक्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेक्टर क्रमांक	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6
1	डॉ. बी.के. असाठी	पशु चिकित्सा अधि. शाल्य	पशु चिकित्सा सेवाएं, दमोह	01	संपूर्ण जिले के लिये
2	श्री नामदेव कोल्हारकर	प्रबंधक	खादी ग्रामोद्योग, जिला पंचायत, दमोह	02	
3	श्री के. के. कोर्सि	सहायक प्राच्यपक	शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दमोह	03	
4	श्री आर.पी. सिंह	प्राच्यपक	शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दमोह	04	
5	डॉ. पी.के. ढाका	सहा. प्राच्यपक	श्री राघवेन्द्र. सिंह हजारी शा.महा.वि. हटा	05	
6	श्री आर.के. अग्रवाल	उपर्यंत्री	लोक निर्माण विभाग दमोह	06	
7	श्री आर.के. दौड़े	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत हटा	07	
8	डॉ. दिनेश कुमार	पशु चिकित्सा अधि. शाल्य	पशु चिकित्सा सेवाएं, दमोह	08	
9	श्री वीरन सिंह रैपुरिया	सहायक संचालक	कृषि विभाग हटा	09	
10	श्री निखलेश अग्रवाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जिला अत्यवरस्थी दमोह	10	
11	श्री ए.एल. कुर्मा	सहायक संचालक	कृषि विभाग दमोह	11	
12	श्री पी.एल. कुशवाहा	सहायक संचालक	कृषि विभाग दमोह	12	
13	श्री महेन्द्र सिंह	उपर्यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हटा	13	
14	श्री दिनेश कुमार पगारे	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिक सेवा पटेरा	14	
15	श्री के.सी. जैन	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) दमोह	15	
16	श्री सिकंदर खान	विकासखण्ड अधिकारी	जनपद पंचायत पटेरा	16	
17	श्री कृपाल आठिया	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास पटेरा	17	

सं. क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेक्टर क्रमांक	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तुतित है
1	2	3	4	5	6
18	श्री शिव राय	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास हटा	18	
19	श्री कृष्ण बिहारी अहिरवार	मण्डल संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग दमोह	19	
20	श्री रिकल घनघोरिया	परियोजना अधिकारी	महिला बालविकास ग्रामीण दमोह	20	
21	श्री एस.डी. व्यास	उपर्यंत्री	लोक स्वास्थ्य योग्यिकी खण्ड दमोह	21	
22	श्री अनिल जैन	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह	22	
23	श्री प्रदीप शुक्ला	परिषेक अधिकारी	वन विभाग हटा	23	
24	श्री अरविन्द कुमार जैन	महाप्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण दमोह	24	
25	श्री बलराम अहिरवार	पशु चिकित्सा अधि. शाल्य	पशु चिकित्सा सेवाएं दमोह	25	
26	श्री ओ०पी० दुर्वे	भूमि सर्वेक्षण अधिकारी	भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी, हटा	26	
27	श्री पी.सी. जैन	उपर्यंत्री	जनपद पंचायत, पटेश	27	
28	श्री एन.एल. मेहरा	सहायक कृषि यंत्री	कृषि अभियांत्रिकी दमोह	28	
29	श्री शेतेन्द्र चौहाने	सहायक यंत्री	म.प्र. गृह निर्माण मण्डल दमोह	(रिजर्व)	
30	श्री आर.पी. बरार	भूमि सर्वेक्षण अधिकारी	भूमि संरक्षण हटा	(रिजर्व)	
31	श्री संदीप कुमार सिंह	प्रबंधक	विकासखण्ड राज्य आजीविका मिशन हटा	(रिजर्व)	

जिल्हा काटनी

विधानसभा निर्वाचन 2018

वेदों का अधिकारी के अद्वितीय प्रदूषकरने वाले (संशोधित) प्रसाद

क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है						
क्रम	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा / सेवा का नाम	संपूर्ण जिते के लिए	संपूर्ण जिते के लिए
1	भू अस्तित्व सहस्रनाम	सहारा प्रबंधक	महाराष्ट्रास्तिप्राप्ति	महाराष्ट्रास्तिप्राप्ति संवर्ग	आयुष संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
2	डॉ रिभुनन प्रताप तिह	आयुषेव चिकित्सक अधिकारी	आयुष चिकित्सक अधिकारी	आयुष संवर्ग	आयुष संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
3	श्री मुरेन्द्र कुमार शर्मा	प्राचार्य	श्रमधाम कला एवं आणि इन्होंने विद्यालय कोमार	उच्च शिक्षा संवर्ग	पश्चिमित्रा संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
4	डॉ एसजेओ अहमदा	पश्चिमित्रा बड़वारा	पश्चिमित्रा बड़वारा	शिक्षा संवर्ग	शिक्षा संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
5	श्री एस०ईओ सिंह	गोईंगांवा	गोईंगांवा बड़वारा	गोआगंगांवा संवर्ग	गोआगंगांवा संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
6	श्री रमेश प्रसाद मेहरा	सहारा यत्री	श्रमधाम कला एवं आणि इन्होंने विद्यालय कोमार	उच्च शिक्षा संवर्ग	उच्च शिक्षा संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
7	श्री सतोप कुमार तिवारी	कोडा अधिकारी	श्रमधाम कला एवं आणि इन्होंने विद्यालय कोमार	आयुष संवर्ग	आयुष संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
8	श्री प्रशांत कुमार	आयुष चिकित्सा अधिकारी	आयुष चिकित्सा अधिकारी	आयुष संवर्ग	जनपद पश्चायत संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
9	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्रा	झुकाराउड़ी	जनपद पश्चायत संवर्ग	आयुष चिकित्सा अधिकारी	आयुष संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
10	डॉ अशोक रेणा	आयुष चिकित्सा अधिकारी	आयुष चिकित्सा अधिकारी हाराई कटनी	आयुष संवर्ग	जनपद पश्चायत संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
11	डॉ सनोज कुमार कोशी	आयुष चिकित्सा अधिकारी	आयुष चिकित्सा अधिकारी दीपरखेड़ा	आयुष संवर्ग	जनपद पश्चायत संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
12	श्री परीप कुमार	झुकाराउड़ी	जनपद पश्चायत संवर्ग	जनपद पश्चायत संवर्ग	रकूत शिक्षा संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
13	श्री रामरमेश पटेल	सहायक सचिवालय	चिकित्सा अधिकारी कटनी	रकूत शिक्षा संवर्ग	रकूत शिक्षा संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
14	श्री एल०एन० गुप्ता	चारकांडा	तिलक राधीय उच्चालय माध्यमिक कटनी	वन सेवा संवर्ग	वन सेवा संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
15	श्री आर०एन० शर्मा	सहारा	सहारा वन संस्करक दीपरखेड़ा	पी०इल०प०इल० संवर्ग	पी०इल०प०इल० संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
16	श्री कवित महेन राम	सहारा	सहारा परियोजना अधिकारी	पी०आई०य० कटनी	पी०आई०य० कटनी	राम०प०प०इल० संवर्ग
17	श्री नीमेश कुमार मिश्रा	सहारा परियोजना अधिकारी	विद्युत युक्त एम०प०ए०र०इल० संवर्ग कटनी	एम०प०ए०र०इल० संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए	संपूर्ण जिते के लिए
18	श्री दायी बाबूदाम अग्रवाल	सहारा यत्री	सहारा यत्री	लहूत शिक्षा संवर्ग	लहूत शिक्षा संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
19	श्री एस०प० शिंदे	व्यायामाता	तिलक राधीय उच्चालय माध्यमिक कटनी	शिक्षा संवर्ग	शिक्षा संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
20	डॉ अमरसिंहा यिह	दीप०इल०ओ दीपरखेड़ा	दीप०इल०ओ दीपरखेड़ा	कृषि संवर्ग	कृषि संवर्ग	संपूर्ण जिते के लिए
21	श्री लक्ष्म कुमार मिश्रा	कृषि विज्ञान केंद्र	कृषि विज्ञान केंद्र पिंडी	कृषि विज्ञान केंद्र विवरेश	कृषि विज्ञान केंद्र विवरेश	संपूर्ण जिते के लिए
22	डॉ अरोन दुर्दे	कृषि विज्ञान केंद्र	कृषि विज्ञान केंद्र विवरेश	कृषि विज्ञान केंद्र पिंडी	कृषि विज्ञान केंद्र विवरेश	संपूर्ण जिते के लिए
23	डॉ कलशन दुर्दे	कृषि विज्ञान केंद्र	कृषि विज्ञान केंद्र पिंडी	कृषि विज्ञान केंद्र विवरेश	कृषि विज्ञान केंद्र विवरेश	संपूर्ण जिते के लिए

24	श्री आनंद पाण्डुप्रसाद	तिला समन्वयक	जन अभियान परिषद सचरा	संपूर्ण जिले के लिए
25	श्री दृष्टि चूमार जाटव	कनिष्ठ खाट आपूर्ति अधिकारी	कनिष्ठ खाट आपूर्ति अधिकारी, ढारखेड़ा	संपूर्ण जिले के लिए
26	श्री जीरोपीठ केवर	सहाइ आवकारी अधिकारी	आवकारी सचरा	संपूर्ण जिले के लिए
27	श्री हेंडेको भिंशा	परियोजना योगी	पोलब्लॉडी संचार	संपूर्ण जिले के लिए
28	श्री असोक कुमार चौरसिया	याइक्यता	स्कूल शिक्षा सचरा	संपूर्ण जिले के लिए
29	श्री सज्जय सिह	प्रबंधक	नागरिक आपूर्ति नियम सचरा	संपूर्ण जिले के लिए
30	श्री अरुणेश शुरवा	प्रबंधक	वेयर हाउस कापेरेशन सचरा	संपूर्ण जिले के लिए
31	श्री पुष्पेन्द्र वर्मा	कार्यक्रम अधिकारी	अंतर्व्यवसायी कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
32	डॉ प्रफुलत मून	पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी कटनी	पशु शिकित्सा संचार	संपूर्ण जिले के लिए
33	श्री ओ०पीठ सिंह वरेल	उप उनमडल अधिक	वन सेवा संचार	संपूर्ण जिले के लिए
34	श्री विजय भार	जिला छेल अधिकारी	खेल एवं युवा कल्याण सचरा	संपूर्ण जिले के लिए
35	श्री जेठेसु तेकाम	वरित्तिकृषि वित्तार अधिक	कृषि संचार	संपूर्ण जिले के लिए
36	श्री अक्षय कुमार	सहायक प्राध्यायपक	उच्च शिक्षा सचरा	संपूर्ण जिले के लिए
37	श्री अनित गिरग	प्राचार्य	शासकीय कल्यान संकाय संकायकर्ता स्कूल विभाग	शिक्षा सचरा
38	डॉ दिव्येन्द्र	दिव्येन्द्र चिकित्सा अधिक	विकाससंघ चिकित्सा अधिक विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
39	श्री शहुल उड़के	सहायक योगी	जलसंसाधन विभाग (कटनी)विभाग (कटनी)	जलसंसाधन सचरा
40	श्री ईमान सिंह वरेल	कारोगायत्रन यत्री	कारोगायत्रन यत्री, विभाग	पोलब्लॉडी सचरा
41	श्रीमती छना टेकाम	मुकामयोजनाधीक्षी	जननपद पर्यायत सचरा	संपूर्ण जिले के लिए
42	डॉ जी०पीठ लवेरा	विकाससंघ पशु चिकित्सा अधिक	पशु शिकित्सा सचरा	संपूर्ण जिले के लिए
43	श्रीमती ननेश मुख्यां	मूलन०पाठी अधिक	नमर पंचायत सचरा	संपूर्ण जिले के लिए
44	श्री सज्जय सोनी	मुकामयोजनाधीक्षी	नमर परिषद विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
45	श्री लालजी सिंह चदेल	सहायतार्थ अधिक	मतरस्य सचरा	संपूर्ण जिले के लिए
46	श्रीमती रीमा मराही	नन परिषेक्र अधिक	दन सेवा सचरा	संपूर्ण जिले के लिए
47	डी देवेंद्र आहेरायर	विकाससंघ रत्न समन्वयक अधिक	विकाससंघ रत्न समन्वयक सचरा	संपूर्ण जिले के लिए
48	श्री एसएस० कर्मी	अ०दिव्येन्द्र	पी०एन०इ० सचरा	संपूर्ण जिले के लिए
49	श्री वित्तवार लतवर	कमिक्षकशियंता	एम०पीठराय०इ० विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
50	श्री रामदुर्ज तिवारी	दायाखला	स्कूल शिक्षा संचार	संपूर्ण जिले के लिए
51	डॉ० लेह०को लेहर	पशु चिकित्सा	पशु चिकित्सा सचरा	संपूर्ण जिले के लिए
52	श्री लयद रुमार वर्मा	कारोगायत्रन यत्री	रह निर्माण मडल संचार	संपूर्ण जिले के लिए

53	ओ राज यहादुर सिंह	सहाय संचालक,	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कर्तव्यण कर्तव्यी	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कर्तव्यण कर्तव्यी	संगूण जिले के लिए
54	श्री लोकमन सिंह	• यात्र्याता	तिलक गार्डीय उत्कृतर माध्यमिक कर्तव्यी	स्कूल शिक्षा संवर्ग	संगूण जिले के लिए
55	श्री अद्वित भूवीन	आयुष विकितसा अधिक	आयुष विकितसा अधिक देवराकता विं गढ़	आयुष संवर्ग	संगूण जिले के लिए
56	श्री आरतेंदु खुराना	कार्यपालन चंडी	जल संसाधन कर्तव्यी	जल संसाधन संवर्ग	संगूण जिले के लिए
57	श्री प्रसान कुमार विश्वकर्मा	सहाय प्रबन्धक,	माध्यमिक संविधानप्राधि कर्तव्यी	माध्यमिक संविधानप्राधि संवर्ग	संगूण जिले के लिए
58	श्री एनकेंद्र मिश्रा	झुकारांभअधिक	जनपद पर्याप्त बरही	जनपद पंचायत संवर्ग	संगूण जिले के लिए
59	श्री आरतेंदु तमू	प्रयार्थ,	शासन महा बरही	उच्च शिक्षा संवर्ग	संगूण जिले के लिए
60	श्री शिवेन्द्र दानदाल	सहाय संचालक	महिला बाल विं कर्तव्यी	महिला बाल विं संवर्ग	संगूण जिले के लिए
61	श्री दोहलेंद्र विश्वा	ताणेल्यकर अधिक	दृत 2 कर्तव्यी	वाणिज्यकर संवर्ग	संगूण जिले के लिए
62	श्री भगवान महारायदर	वाणिज्यकर अधिक	वृत 1 कर्तव्यी	वाणिज्यकर संवर्ग	संगूण जिले के लिए
63	श्री कोइरात यदेल	विकाससंघ रतोत समन्वयक अधिक	विकाससंघ रतोत समन्वयक अधिक विठगढ़	जनपद पंचायत संवर्ग	संगूण जिले के लिए
64	श्री शाहेद्व चंद्रकोले	वाणिज्यकर अधिक	वृत 1 कर्तव्यी	वाणिज्यकर संवर्ग	संगूण जिले के लिए
65	श्री चंद्रि विंह	सहाय अपूर्ति अधिक	सहा 10 आपूर्ति अधिक विठगढ़	चाल संवर्ग	संगूण जिले के लिए
66	श्री रविश्वकर याणदुर्य	चुण्ड परियोजना अधिक	महिला सशक्तिकरण विठगढ़	महिला बाल विं संवर्ग	संगूण जिले के लिए
67	श्री हरे सिंह चंडी	सहायक चंडी	नर्मदाधारी विं प्रा०	सिंचाई संवर्ग	संगूण जिले के लिए
68	श्री सतीश युम्मर सालवर	अधीक्षक चंडी	नर्मदाधारी विं प्रा०	सिंचाई संवर्ग	संगूण जिले के लिए
69	श्री आरतेंदु तिवारी	यात्र्याता	तिलक गार्डीय उत्कृतर माध्यमिक कर्तव्यी	स्कूल शिक्षा संवर्ग	संगूण जिले के लिए
70	श्री अरोपक ब्रेन	सहायक चंडी	नर्मदाधारी विं प्रा०	सिंचाई संवर्ग	संगूण जिले के लिए
71	श्री लोहेण नादन्यर	सहा 1 यंत्री	नर्मदाधारी विं प्रा०	सिंचाई संवर्ग	संगूण जिले के लिए
72	श्री प्रकाश राव सोनकश्वते	कार्यपालन चंडी	नर्मदाधारी विं प्रा०	सिंचाई संवर्ग	संगूण जिले के लिए
73	श्री नकल द दे	सहायक प्रबन्धक	विला उदयोग केन्द्र कर्तव्यी	उदयोग संवर्ग	संगूण जिले के लिए
74	श्री सतीष तिवारी	सहायक प्रबन्धक	जिला उदयोग केन्द्र कर्तव्यी	उदयोग संवर्ग	संगूण जिले के लिए
75	श्री रणजीत सिंह गोतम	सहायक प्रबन्धक	जिला उदयोग केन्द्र कर्तव्यी	उदयोग संवर्ग	संगूण जिले के लिए
76	श्री एसकेंद्र द दे	सहायक प्रबन्धक	नाईनिंगा कौंपरिशन कर्तव्यी	उदयोग संवर्ग	संगूण जिले के लिए
77	श्री अनंत श्रावास्तव	प्रबन्धक	दिलाक उदयोग केन्द्र कर्तव्यी	उदयोग संवर्ग	संगूण जिले के लिए
78	श्री अनित कुमार दलेला	प्रायार्थक	तिलक कालेज कर्तव्यी	उच्च शिक्षा संवर्ग	संगूण जिले के लिए
79	श्री अनित कुमार तोहेल	सहायक प्रायार्थक	तिलक कालेज कर्तव्यी	उच्च शिक्षा संवर्ग	संगूण जिले के लिए
80	श्री इंद्र रमणी प्रताप सिंह	सहायक प्रायार्थक	उच्च शिक्षा संवर्ग	उच्च शिक्षा संवर्ग	संगूण जिले के लिए
81	श्री धर्याम गोहती	प्रायार्थक	शासन उत्कृष्ट उत्तमां विं उमरियापान	स्कूल शिक्षा संवर्ग	संगूण जिले के लिए
82	श्री मनेन्द्र प्रताप सिंह	सहायक प्रायार्थक	तिलक कालेज कर्तव्यी	उच्च शिक्षा संवर्ग	संगूण जिले के लिए
83	श्री साहार दिवाकर	सहायक प्रायार्थक	तिलक कालेज कर्तव्यी	उच्च शिक्षा संवर्ग	संगूण जिले के लिए

84	श्री इदुकमार	महायक प्राध्यायक	तिलक कालेज कट्टनी	उच्च शिक्षा संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
85	श्री वीरेन्द्र दवेंद्री	सहायक प्राध्यायक	तिलक कालेज कट्टनी	एच्च शिक्षा संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
86	भ्रमी अंजय सिंगारे	सहायक चंडी	गामीण यात्रिकी सेवा संभाग कट्टनी	ग्रामीण यात्रिकी सर्वांगी	संपूर्ण जिले के लिए
87	श्री संजय जैन	कार्यपालन यंत्री	कट्टनी विकास प्राधिकरण	विकास प्राधिकरण सर्वांगी	संपूर्ण जिले के लिए
88	श्री रमेश प्रसाद कोल	सहायक चंडी	संक्षेप कट्टनी	मंत्रीमंत्र गृह निर्माण एवं अधोसंचाना विकास प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
89	श्री वीरेन्द्र सिंह	परियोजना अधिकारी	उदयनिकी कट्टनी	उदयनिकी कट्टनी	संपूर्ण जिले के लिए
90	श्री अंजय केवलकर	सहायक सचालक	महत्व विभाग कट्टनी	महत्व संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
91	डॉ राजेन्द्र कुमार सिंह	निला आयश अधिकारी	आयश विभाग कट्टनी	आयश संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
92	डॉ भरतेश कुमार जैन	निला आयुर्वेद अधिकारी	आयुष विभाग कट्टनी	आयुष संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
93	श्री अंजीज सिद्धकी	निला संचयाजक	आदिम जाती गवायाप	आदिम जाती कल्याण संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
94	डॉ एस०स० उद्धीर	प्राचार्य	पर्यावरणक कालेज कट्टनी	तकनीकी शिक्षा संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
95	श्री अरुण मस्राम	सहायक पठियक	सहकारिता विभाग कट्टनी	सहकारिता सर्वांगी	संपूर्ण जिले के लिए
96	श्री एम० पोल	प्राचार्य	उत्कृष्ट विद्यालय बहोरीबद	स्कूल शिक्षा संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
97	श्री अन०स० अमादी	उपर्योगी,	जल संसाधन शीति	जल संसाधन संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
98	श्री गवाहान कोरी	उपर्योगी,	जल संसाधन बहोरीबद	जल संसाधन संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
99	श्री संदेप मगालामी	उपर्योगी,	जल संसाधन शीति	जल संसाधन संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
100	श्री आप०ब० सिंह	उपर्योगी,	जल संसाधन बहोरीबद	जल संसाधन संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
101	श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी	उपर्योगी,	बी०ई०अ० बहोरीबद	शिक्षा संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
102	श्री अंकोक कुमार आरिया	वी०आर०स० शीति	बी०आर०स० शीति	शिक्षा संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
103	श्री विनोद गोत्या	विद्यारथसंगठन	माहिता एवं बाल विकास संवर्ती	माहिता एवं बाल विकास संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
104	श्री संताश कटेल	विद्यियोजना अधिकारी	मानपद संवर्ती	मानपद संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
105	श्री द्रष्टो तेज़ह	मुकुरांब०अधिना	मुख्य कार्यपालन अधिना० लनपद पंचायत, शीति	जनपद पंचायत सर्वांगी	संपूर्ण जिले के लिए
106	श्री अम॒कुम चूमार जैन	सहायक चंडी	मनसागा जनपद पंचायत बहोरीबद	मनसागा जनपद पंचायत अनियंत्रण संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
107	श्री अम॒कुम जैन	परियोजना अधिना०	शहरी विकास अनियंत्रण कट्टनी	शहरी विकास संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
108	श्री एत०स० दहायत	वी०ई०इ०ओ	वी०ई०इ०ओ० शीति	वी०ई०इ०ओ० शीति	संपूर्ण जिले के लिए
109	ल०० आर०स०० रिह	प्रश्न विज्ञप्तक अधिना०	प्रश्न विज्ञप्तक अधिना०	प्रश्न विज्ञप्तक अधिना०	संपूर्ण जिले के लिए
110	श्री गैतेन्द्र विज्ञा	प्रश्न विज्ञप्तक अधिना०	वी०आर०स०० बहोरीबद	प्रश्न विज्ञप्तक संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए
111	ह०० अर०त विज्ञा	प्रश्न विज्ञप्तक अधिना०	प्रश्न विज्ञप्तक अधिना०	प्रश्न विज्ञप्तक अधिना०	संपूर्ण जिले के लिए
112	श्री गोताल फैशियाल	संसद०० संवालक	माहिता बाल शीति कट्टनी	माहिता बाल शीति	संपूर्ण जिले के लिए
113	श्री गोपेन्द्र चूक्तना	रेस्टर	उच्च विभाग बहोरीबद	उच्च विभाग बहोरीबद	संपूर्ण जिले के लिए
114	श्रीमति अम॒कुम जैन	मुकुरांब०अधिना०	जनपद पंचायत संवर्ती	जनपद पंचायत संवर्ती	संपूर्ण जिले के लिए

	संख्या	नाम	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	आयुर्वेद चिकित्सा निवेदित	आयुष सर्व	संपूर्ण निवेद के लिए
115	श्री	राम तिवारी	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	आयुर्वेद चिकित्सा निवेदित	आयुष सर्व	संपूर्ण निवेद के लिए
116	श्री	अनिल कुमार जाटव	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी बड़गांव रीटी	आयुष सर्व	संपूर्ण निवेद के लिए
117	श्री	सुनील कुमार	सहौल प्रध्यापक	शाहौल महाविद्यालय बहोरीबद	उच्च शिक्षा संवर्धन	संपूर्ण निवेद के लिए
118	श्री	प्रभाष तिवारी	सहौल प्रध्यापक	शाहौल महाविद्यालय स्वतीमनवाद	उच्च शिक्षा संवर्धन	संपूर्ण निवेद के लिए
119	श्री	प्रमसिंह राठोर	आयुर्वेद चिकित्सक	आयुर्वेद चिकित्सक रत्नीकान्ताद	आयुष सर्व	संपूर्ण निवेद के लिए
120	श्री	संतोष अग्रवाल	महिला सत्ताविकारण अधिकारी	महिला एवं लाल विकास रीटी	महिला एवं लाल विकास संवर्धन	संपूर्ण निवेद के लिए
121	श्री	मुद्देश कुमार महोरिया	परियोजना अधिकारी	परियोजना अधिकारी बहोरीबद	मध्यप्रदेशविधायक सभा	संपूर्ण निवेद के लिए
122	श्री	रंजीत कुमार शेहतास	प्रगतार्थ	आईटीजेआई बहोरीबद	तकनीकी शिक्षा संवर्धन	संपूर्ण निवेद के लिए
123	श्री	दरकज कुमार जामसदार	कैमा चिकित्सा परायिकारी	कैमा चिकित्सा परायिकारी निवार	कैमा चिकित्सा संवर्धन	संपूर्ण निवेद के लिए

ପ୍ରାଚୀନ କବିତା

रिजर्व जोनल/सेक्टर अधिकारी					
	शिक्षा विभाग संचार	शिक्षा विभाग संचार	शिक्षा संचार	शिक्षा संचार	शिक्षा संचार
1	श्री अमय तेजन	अतिरिक्त परियोजना समचयक			संपूर्ण जिले के लिये
2	श्री प्रशान्त वैद्य	कार्यपालन अभियंता	एसपीओएसठृटीयो	विद्युत संचार	संपूर्ण जिले के लिये
3	सुश्री बनश्ची उर्देती	जिला महिला मशक्कितकरण विभाग	महिला सशक्तिकरण सर्वर्ग	संपूर्ण जिले के लिये	संपूर्ण जिले के लिये
4	श्री मायाराम कोल	अधिकारक भू-अभियोग	भू-अभियोग (राजस्व)	राजस्व संचार	संपूर्ण जिले के लिये
5	श्री राजमणि बागरी	सहायीकरक भू-अभियोग	भू-अभियोग (राजस्व)	राजस्व संचार	संपूर्ण जिले के लिये
6	श्री देवरसिंह बागरी	सहायीकरक भू-अभियोग	भू-अभियोग (राजस्व)	राजस्व संचार	संपूर्ण जिले के लिये
7	श्री मन्नालाल तिवारी	सहायीकरक भू-अभियोग	भू-अभियोग (राजस्व)	राजस्व संचार	संपूर्ण जिले के लिये
8	श्री नन्द विश्वास मेहरा	उपर्युक्ती	जलसंरक्षण, वाहरेवद	जलसंरक्षण संचार	संपूर्ण जिले के लिये
9	श्री एचके तिवारी	उपर्युक्ती अधिकारी	मायप्र० प्रदृष्टण नियंत्रण मा० करनी	मायप्र० प्रदृष्टण संचार	संपूर्ण जिले के लिये
10	श्री अंगलस्त्रांझा	व्याख्याता	विलक राष्ट्रीय उमाप० विद्यालय करनी	स्कूल शिक्षा संचार	संपूर्ण जिले के लिये
11	श्री वृन्द विहारी दुबे	राहगांत्रियालक	डाईट करनी	स्कूल शिक्षा संचार	संपूर्ण जिले के लिये
12	श्री नरेन्द्र कुमार श्रीगांत्रिय	व्याख्याता	डाईट करनी	स्कूल शिक्षा संचार	संपूर्ण जिले के लिये
13	श्री मन्नालाल गहरा	प्राचार्य	शास्त्रीयमध्याद्या० तेजरी	स्कूल शिक्षा संचार	संपूर्ण जिले के लिये
14	श्री धनशयग प्रसाद यादव	व्याख्याता	शास्त्रीयमध्याद्या० तेजरी	स्कूल शिक्षा संचार	संपूर्ण जिले के लिये
15	श्री जगदीप प्रसाद कारपेटर	व्याख्याता	शास्त्रीयमध्याद्या० तेजरी	स्कूल शिक्षा संचार	संपूर्ण जिले के लिये
16	श्री मदन लाल गोखे	प्राचार्य	शास्त्रीयमध्याद्या० दशरथन	स्कूल शिक्षा संचार	संपूर्ण जिले के लिये
17	श्री आनन्द कुमार कोरी	प्राचार्य	एनवीजेम० करनी	स्कूल शिक्षा संचार	संपूर्ण जिले के लिये
18	श्री सुरुदेव रिह मरवी	प्राचार्य	शास्त्रीयमध्याद्या० भैगवा	स्कूल शिक्षा संचार	संपूर्ण जिले के लिये
19	श्री लिपनाराम भगत	प्राचार्य	शास्त्रीयमध्याद्या० वरही	स्कूल शिक्षा संचार	संपूर्ण जिले के लिये
20	रामगांगा		इक्ष्य० डेंमाय० विद्य० वरही	स्कूल शिक्षा संचार	संपूर्ण जिले के लिये